



नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्

पालिका केन्द्र: नई दिल्ली अग्निशमन विभाग



नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के भवनों में अग्नि सुरक्षा के उपाय- क्या करें एवं क्या ना करें।

सामान्य समय में.....

क्या करें	क्या ना करें
1. सदा अच्छी साफ सफाई रखें। यह आग लगने व उसे फैलने से रोकने का सबसे अच्छा उपाय है।	1. अपने कार्यालय में रद्दी पेपर व ज्वलनशील पदार्थों को इकट्ठा न होने दें।
2. कार्यालय के प्रयोग में न होने के समय, हीटर, एयरकंडिशनर व दूसरे पावर उपकरणों के स्विच सदा बंद रखें।	2. आग से बचाव के रास्तों, सीढ़ियों एवं फायर पंपों के रास्तों में कोई भी वस्तु जमा न करें।
3. अपने कार्यालय को बंद करते समय सुनिश्चित करें कि सभी दरवाजे व खिड़कियाँ अच्छी तरह बंद हैं, बत्ती व दूसरे विद्युत उपकरणों के स्विच बंद हैं।	3. विद्युत शाफ्ट एवं विद्युत कमरों को वस्तु भण्डारण एवं कूड़ा करकट रखने के प्रयोग में न लायें।
4. ओवर लोडिंग एवं शॉर्ट सर्किट का बचाव करते हुए, सावधानी पूर्वक विद्युत का प्रयोग करें।	4. विद्युत के खुले तारों को दरवाजों व खिड़कियों के ऊपर, गलीचे/दरी और रखी हुई फाईलों के पास ना फैलायें।
5. तार योजना, स्विच व फ्यूज सर्किट सही क्षमता के अनुसार होने चाहियें।	5. खुले तारों का विद्युत जोड़ों में प्रयोग ना करें।
6. धुआँ व अग्निरोधक दरवाजे सदा बंद रखें।	6. विद्युत मरम्मत व फ्यूज बदलने के लिए अधिकृत इलक्ट्रीशियन को ही बुलायें। स्वयं छेड़छाड़ न करें।
7. उपलब्ध अग्नि सचेतक प्रणाली की जानकारी प्राप्त करें।	7. विद्युत संस्थापन में फेरबदल या नए कार्य स्वयं न करें।
8. आग से बचाव के रास्तों की जानकारी प्राप्त करें, तथा उन्हें किसी भी प्रकार की रूकावट से साफ रखें।	8. एक सॉकेट में एक से ज्यादा विद्युत उपकरण ना जोड़ें।
9. अपने कार्य के स्थान में नजदीक दिए गए अग्नि शामकों की जगह व उनके प्रयोग की विधि के बारे में जानें।	9. स्विच बंद करने से पहले प्लग को सॉकेट से अलग ना करें।
10. अपने विद्युत मेन स्विच की जगह तथा उसके प्रयोग की विधि के बारे में जानें।	10. इमारत के भीतर खुली आग न जलायें।

आग लगने की स्थिति में.....

क्या करें	क्या न करें
1. अलार्म बजायें तथा तुरंत दमकल दल को फोन नं. 101 पर सूचित करें, फायर मेन की मदद करें।	1. घबरायें नहीं, शांत रहें। दहशत न फैलायें भगदड़ न करें।
2. यदि आप बिना किसी जोखिम के कर सकें तो अग्नि शामक यंत्र द्वारा आग पर काबू पायें।	2. इधर उधर दौड़ कर, व चिल्ला कर दूसरे लोगों में घबराहट ना फैलायें।
3. यदि आप बिना किसी जोखिम के कर सकें तो महत्वपूर्ण रिकॉर्ड तथा अपने को बचायें तथा ज्वलनशील पदार्थों को आग के रास्ते से हटायें।	3. आग लगने की जगह पर भीड़ इकट्ठा ना करें।

यदि आप आग में फंस जायें.....

क्या करें	क्या न करें
1. नजदीक बाहर जाने के रास्ते से या अन्य बचाव द्वार से बाहर निकले की कोशिश करें।	1. घबरायें नहीं, शांत रहें, संयम रखें।
2. यदि आप बाहर नहीं निकल पायें तो सहायता आने तक कमरों में रुकें।	2. दौड़े नहीं, चलें तथा आवश्यकता होने पर रेंगे।
3. सभी दरवाजे, खिड़कियाँ तथा अन्य भागों को बंद करें।	3. बाथरूम और क्लॉक रूम में शरण ना लें।
4. गीले कपड़े को दरारों तथा छिद्रों पर रखकर धुएँ को कमरे में घुसने से रोकें।	4. बचाव के लिये लिफ्ट का प्रयोग ना करें।
5. जमीन पर लेट जाये क्योंकि धुआँ निचले स्तर पर कम होगा।	5. अपनी व्यक्तिगत चीजों को एकत्रित करने के लिये अग्नि से प्रभावित स्थान पर न रुकें और न ही पुनः वहाँ जाने का प्रयास करें।
6. अपने नाक व चेहरे को गीले कपड़े से ढकें।	
7. खिड़की वगैरह से सहायता के लिये संकेत दें।	